



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 4, 2019/पौष 14, 1940
No. 9]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 4, 2019/PAUSHA 14, 1940

संस्कृति मंत्रालय

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2019

सा.का.नि. 9(अ).—प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतिपय प्रारूप नियमों को बनाने का प्रस्ताव करती है जिन्हें उक्त धारा की उप धारा (1) की अपेक्षानुसार ऐसे सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि इन प्रारूप नियमों पर, इनके सरकारी राजपत्र की प्रकाशित प्रतियों के जनता को उपलब्ध होने के 45 दिनों की अवधि पर या उसकी समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त-प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आपत्ति या सुझाव, महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय, धरोहर भवन, 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों को प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 2019 कहा जाएगा।
ये शासकीय राजपत्र में अन्तिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) नियम, 1959 में द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

**"द्वितीय अनुसूची"
(नियम 6 देखें)**

भाग- I

श्रेणी 'क' स्मारक

क्र. सं.	राज्य	जिला	इलाका	स्मारक का नाम
1.	गुजरात	गोधरा	पावागढ़	चंपानेर स्मारक
2.	कर्नाटक	बेल्लारी	हम्पी कमलापुरम कृष्णापुरम वेंकटापुरम	स्मारक समूह
3.	कर्नाटक	बगलकोट	पट्टडकल	स्मारक समूह
4.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	अजंता	अजंता गुफाएं
5.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	एलोरा	एलोरा गुफाएं
6.	महाराष्ट्र	बॉम्बे (कोलाबा)	घरापुरी	एलीफेंटा
7.	मध्य प्रदेश	छतरपुर	खजुराहो	पश्चिमी स्मारक समूह
8.	मध्य प्रदेश	रायसेन	सांची	बौद्ध स्मारक
9.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली ज़ेल	हुमायूं का मकबरा
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	महरौली	कुतुब , पुरातात्विक क्षेत्र
11.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली ज़ेल	दिल्ली किला
12.	ओडिशा	पुरी	कोणार्क	सूर्य मंदिर
13.	तमिलनाडु	कांचिपुरम	महाबलीपुरम	महाबलीपुरम में स्थित स्मारक समूह
14.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	आगरा किला
15.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	ताज स्मारक समूह
16.	उत्तर प्रदेश	आगरा	फतेहपुर	फतेहपुर सीकरी
17.	बिहार	नालंदा	नालंदा	उत्खनित स्थल
18.	गुजरात	पाटन	पाटन	रानी-की-वाव
19.	राजस्थान	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़ किला
20.	राजस्थान	राजसमुंद	कुंभलगढ़	कुंभलगढ़ किला

भाग-II

श्रेणी 'ख' स्मारक

1.	आंध्र प्रदेश	चित्तूर	चंद्रगिरी	राजा और रानी महल
2.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	अमरावती	विध्वस्त बौद्ध स्तूप और अन्य अवशेष
3.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	उंदावल्ली	चौमंजिला शैलकृत हिंदू मंदिर
4.	आंध्र प्रदेश	पश्चिम गोदावरी	गुंटापल्ली	बौद्ध स्मारक

5.	आंध्र प्रदेश	गुंटूर	पुल्लारेड्डीगुडम् (अग्रहारम)	प्राचीन अवशेष के साथ नागार्जुनकोंडा (अग्रहारम) की पहाड़ी
6.	असम	शिवसागर	गढ़गांव	अहोम राजा का महल
7.	असम	शिवसागर	जाँयसागर	करनघर महल
8.	असम	शिवसागर	जाँयसागर	रंग-घर मंडप
9.	असम	शिवसागर	जाँयसागर	त्रिष्णुडोल
10.	असम	शिवसागर	चरायदेव	चार मैदानों का समूह
11.	बिहार	पटना	कुम्राहर	मौर्यकालीन महल स्थल
12.	बिहार	रोहतास	सासाराम	शेरशाह सूरी का मकबरा
13.	बिहार	वैशाली	चक्रमदास	प्राचीन खंडहर, वैशाली
14.	बिहार	भागलपुर	अन्तिचक	उत्खनित स्थल
15.	छत्तीसगढ़	महासमुंद	सिरपुर	लक्ष्मण मंदिर
16.	गुजरात	मेहसाणा	मोढेरा	सूर्य मंदिर
17.	गुजरात	जूनागढ़	जूनागढ़	बौद्ध गुफाएं
18.	गुजरात	जूनागढ़	जूनागढ़	अशोक के शिलालेख
19.	गुजरात	जूनागढ़	जूनागढ़	बाबा प्यारें और खापरा कोडिया गुफाएं
20.	गुजरात	गांधीनगर	गांधीनगर	रुदाबाई बावली, अदालज
21.	गोवा	गोवा	गोवा	ऊपरी किला, अगुअदा
22.	हरियाणा	कुरुक्षेत्र	थानेसर	शेख चिल्ली का मकबरा
23.	हरियाणा	फरीदाबाद	लकरपुर	सूरज कुंड मठ
24.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	कांगड़ा	किला
25.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा	मसरूर	मूर्तियों के साथ शैलकृत मंदिर
26.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	किरमची	मंदिर समूह
27.	जम्मू और कश्मीर	उधमपुर	रामनगर	रामनगर महल
28.	जम्मू और कश्मीर	लेह	लेह	महल
29.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	अवंतीपुर अवंतीस्वामी मंदिर	मंदिर समूह
30.	कर्नाटक	मांड्या	श्रीरंगपटना	दरिया दौलत बाग
31.	कर्नाटक	मैसूर	सोमनाथपुर	केशव मंदिर
32.	कर्नाटक	बंगलौर	बंगलौर	टीपू सुल्तान का महल
33.	कर्नाटक	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	किला
34.	कर्नाटक	बेल्लारी	बेल्लारी	किला
35.	कर्नाटक	बगलकोट	ऐहोल	दुर्ग मंदिर
36.	कर्नाटक	बगलकोट	बादामी	जैन और त्रिष्णु गुफाएं
37.	कर्नाटक	बीजापुर	बीजापुर	गोल गुम्बज
38.	कर्नाटक	बीजापुर	बीजापुर	इब्राहिमरौजा
39.	कर्नाटक	धारवाड	लक्कुंडी	मंदिर और मूर्तिकला दीर्घा

40.	केरल	कासरगोड	पलक्कड	बेकल किला
41.	केरल	केरल	केरल	किला, पलक्कड, पलक्कड
42.	केरल	कन्नूर	कन्नूर	सेंट एंजिलो किला, कन्नूर
43.	मध्य प्रदेश	बुरहानपुर	बुरहानपुर	शाही किला
44.	मध्य प्रदेश	धार	बाग	बौद्ध गुफाएं नंबर 1-7
45.	मध्य प्रदेश	धार	मांडू	रॉयल कॉम्प्लेक्स
46.	मध्य प्रदेश	धार	मांडू	रानी रूपमती का मंडप
47.	मध्य प्रदेश	धार	मांडू	होशंग शाह का मकबरा
48.	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	ग्वालियर	किला
49.	मध्य प्रदेश	मंदसौर	धामनार, तहसील गरोठ	बौद्ध गुफा सं. 01 से 51 धामनार, तहसील गरोठ
50.	मध्य प्रदेश	अशोकनगर	चंदेरी	बादल महल गेटवे, चंदेरी
51.	मध्य प्रदेश	अनूपपुर	अमरकंटक	मंदिर समूह, परमेश्वर शिव, और करण मंदिर, अमरकंटक
52.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	जबलपुर	मदन महल किला
53.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद	होशंगाबाद	प्राचीन स्थल और आदमगढ़ शिला आश्रय, कालंदी रासुलिया और किशनपुर
54.	मध्य प्रदेश	विदिशा	विदिशा	गुफाएं 1 से 20 उडयगिरी, विदिशा
55.	मध्य प्रदेश	दतिया	दतिया	वीर सिंह महल, दतिया
56.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	दौलताबाद	दौलताबाद किला
57.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	बीबी-का-मकबरा
58.	महाराष्ट्र	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद गुफाएं
59.	महाराष्ट्र	नासिक	पिथरडी	पांडव लेना गुफाएं
60.	महाराष्ट्र	बॉम्बे उपनगर	कन्हेरी	कन्हेरी गुफाएं
61.	महाराष्ट्र	पुणे	कार्ला	कार्ला गुफाएं
62.	महाराष्ट्र	पुणे	जुनार	जुनार गुफाएं और अभिलेख
63.	महाराष्ट्र	रायगढ़	रायगढ़	रायगढ़ किला
64.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	शनिवार वाडा
65.	महाराष्ट्र	कोलाबा	अलिबाद	हिराकोटा पुराना किला
66.	महाराष्ट्र	शोलापुर	शोलापुर	पुराना किला
67.	महाराष्ट्र	पुणे	भाजा	गुफाएं, मंदिर और शिलालेख
68.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	आगा खान महल
69.	महाराष्ट्र	रायगढ़	रायगढ़	जनजीरा किला, मुर्द
70.	महाराष्ट्र	मुंबई उपनगर	मुंबई उपनगर	कोंडिओट गुफाएं
71.	महाराष्ट्र	पुणे	पुणे	लोहगढ़ किला
72.	महाराष्ट्र	अमरावती	अमरावती	गाविलगढ़ किला
73.	महाराष्ट्र	नागपुर	मनसार	मठ स्तूप, प्रस्तर प्रतिमाएं, शिलालेख आदि वाले प्राचीन बौद्ध

				अवशेष, मनसार
74.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	लोधी रोड	सफदरजंग का मकबरा
75.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	पुराना किला	पुराना किला
76.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	कनॉट प्लेस	जंतर मंतर
77.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	निजामुद्दीन	रहीम -खान- ए – खाना मकबरा
78.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	नालिकपुर कोही	सुल्तान गिरी मकबरा
79.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	तुगलकाबाद	किला
80.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	फिरोजशाह कोटला
81.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	दिल्ली	दिल्ली	हौज़ख़ास
82.	ओडिशा	खोर्दा	भुवनेश्वर	राजा रानी महल
83.	ओडिशा	पुरी	जगमा	उदयगिरि और खांडगिरी
84.	ओडिशा	कटक	रत्नागिरि	उत्खनित स्थल
85.	ओडिशा	कटक	ललितगिरि	उत्खनित स्थल
86.	राजस्थान	भरतपुर	डीग	डीग महल
87.	राजस्थान	अजमेर	अजमेर	अन्न सागर बांध पर संगमरमर मंडप और जंगला तथा अन्न सागर बांध के पीछे संगमरमर हमाम के अवशेष
88.	राजस्थान	दौसा	दौसा	अभानेरी स्थित बावली
89.	राजस्थान	अलवर	अलवर	प्राचीन स्थल, भानगढ़
90.	तेलंगाना	हैदराबाद	गोलकुंडा	गोलकुंडा किला
91.	तेलंगाना	वारंगल	वारंगल	वारंगल किला
92.	तेलंगाना	हैदराबाद	हैदराबाद	चारमीनार
93.	तमिलनाडु	डिंडीगुल	डिंडीगुल	किला
94.	तमिलनाडु	विलुपुरम	जिंजी	राजागिरि किला और कृष्णागिरी किला
95.	तमिलनाडु	तिरचिनापल्ली	कलुमबलूर	मुवाकोईल
96.	तमिलनाडु	चेन्नई	किला सेंट जॉर्ज	किला सेंट जॉर्ज
97.	तमिलनाडु	पुडुकोट्टई	तिरुमायम	किला
98.	तमिलनाडु	पुडुकोट्टई	सित्तानवासल	शैलकृत जैन मंदिर
99.	तमिलनाडु	पुडुकोट्टई	सित्तानवासल	ईलादीपट्टणम के नाम से विख्यात प्राकृतिक गुफाएं
100.	तमिलनाडु	कन्याकुमारी	कन्याकुमारी	वल्लाकोट्टई किला
101.	तमिलनाडु	विरुदुनगर	विरुदुनगर	तिरुमल्लई नायक का किला,

				श्रीविलिपुथुत
102.	तमिलनाडु	कांचीपुरम	कांचीपुरम	बाघ के सिर वाले शिलाकृत मंदिर और दो अन्य स्मारक, सलुवकुप्पम
103.	उत्तर प्रदेश	बांदा	कालिंजर	कालिंजर किला
104.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	राम बाग में स्मारकों का समूह
105.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	इतमाद-उद-दौला की कब्र
106.	उत्तर प्रदेश	आगरा	सिकन्दरा	मरीयम की कब्र
107.	उत्तर प्रदेश	आगरा	सिकन्दरा	अकबर की कब्र
108.	उत्तर प्रदेश	आगरा	आगरा	मेहताब बाग
109.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	गाजीपुर	लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा
110.	उत्तर प्रदेश	जौनपुर	जौनपुर	पुराना किला
111.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	मान सिंह की वेधशाला
112.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	सारनाथ	उत्खनित स्थल
113.	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	रानी झांसी का महल
114.	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	साहेत- महत	श्रावस्ती के स्मारक
115.	उत्तर प्रदेश	झांसी	झांसी	झांसी किला
116.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ	रेज़िडेंसी
117.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	लाल खान की कब्र
118.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	वाराणसी	चौखंडी स्तूप से विख्यात प्राचीन बौद्ध स्थल
119.	उत्तर प्रदेश	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	पिप्रहवा और गनवरिया
120.	उत्तर प्रदेश	ललितपुर	ललितपुर	गुप्त मंदिर और वराह मंदिर, देवगढ़
121.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	बिष्णुपुर	बिष्णुपुर मंदिर समूह
122.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	कूच बिहार	कूच बिहार पैलेस
123.	पश्चिम बंगाल	मुर्शिदाबाद	हज़ारदुआरी	हज़ारदुआरी पैलेस

[फा.सं. 9/2/2017-एम]

उषा शर्मा, महानिदेशक

फुट नोट : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) द्वारा पृष्ठ सं. 519-523 में दिनांकित 15 अक्तूबर, 1959 प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नानुसार संशोधित किए गए थे:

1. का.आ. संख्या 3520 दिनांक 20 नवम्बर, 1966
2. सा.का.नि. संख्या 663 दिनांक 1 मई, 1967
3. का.आ. संख्या 935 दिनांक 16 फरवरी, 1971
4. सा.का.नि. संख्या 90 दिनांक 30 जनवरी, 1991
5. सा.का.नि. संख्या 306 दिनांक 10 जुलाई, 1996
6. सा.का.नि. संख्या 799 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000
7. सा.का.नि. संख्या 800 (अ) दिनांक 17 अक्तूबर, 2000

8. सा.का.नि. संख्या 848 (अ) दिनांक 3 नवम्बर, 2000
9. का. आ. संख्या 10 (अ) दिनांक 5 जनवरी, 2001
10. सा.का.नि. संख्या 688 (अ) दिनांक 24 सितंबर, 2001
11. सा.का.नि. संख्या 372 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2003
12. सा.का.नि. संख्या 112 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2008
13. सा.का.नि. संख्या 164 (अ) दिनांक 5 मार्च, 2008
14. सा.का.नि. संख्या 436 (अ) दिनांक 3 जून, 2008
15. सा.का.नि. संख्या 631 (अ) दिनांक 13 अगस्त, 2012
16. सा.का.नि. संख्या 391 (अ) दिनांक 31 मार्च, 2016
17. सा.का.नि. संख्या 1539 (अ) दिनांक 21दिसंबर, 2017
18. सा.का.नि. संख्या 98 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2018
19. सा.का.नि. संख्या 726 (अ) दिनांक 30 जुलाई, 2018
20. सा.का.नि. संख्या 879 (अ) दिनांक 13 सितंबर, 2018

MINISTRY OF CULTURE
(Archaeological Survey of India)
NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2019

G.S.R. 9(E)—The following draft of certain rules further to amend the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Rules, 1959, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 38 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) is hereby published as required by sub-section (1) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Any objection or suggestion which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Objections or suggestions, if any, may be sent to the Director General, Archaeological Survey of India, Ministry of Culture, Dharohar Bhawan, 24 Tilak Marg, New Delhi- 110001.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement:-

These rules shall be called the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Amendment) Rules, 2019.

They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Rules,1959), for the second Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely;—

“Second Schedule

(See rule 6)

Part-I

Category ‘A’ Monuments

Sl. No.	State	District	Locality	Name of Monument
1.	Gujarat	Godhra	Pavagarh	Champaner Monuments
2.	Karnataka	Bellary	Hampi Kamalapuram Krishnapuram Venkatapuram	Group of monuments
3.	Karnataka	Bagalkot	Pattadkal	Group of monuments
4.	Maharashtra	Aurangabad	Ajanta	Ajanta Caves
5.	Maharashtra	Aurangabad	Ellora	Ellora Caves
6.	Maharashtra	Bombay (Kolaba)	Gharapuri	Elephanta
7.	Madhya Pradesh	Chhattarpur	Khajuraho	Western group of monuments
8.	Madhya Pradesh	Raisen	Sanchi	Buddhist monuments
9.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Delhi Zail	Humayun’s Tomb
10.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Mehrauli	Qutab, Archaeological area
11.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Delhi Zail	Delhi Fort
12.	Odisha	Puri	Konarak	Sun Temple
13.	Tamil Nadu	Kanchipuram	Mahabalipuram	Group of monuments at Mahabalipuram
14.	Uttar Pradesh	Agra	Agra	Agra Fort
15.	Uttar Pradesh	Agra	Agra	Taj Group of monuments
16.	Uttar Pradesh	Agra	Fatehpur	Fatehpur Sikri
17.	Bihar	Nalanda	Nalanda	Excavated site
18.	Gujarat	Patan	Patan	Rani-ki-vav
19.	Rajasthan	Chittorgarh	Chittorgarh	Chittorgarh Fort
20.	Rajasthan	Rajsamand	Kumbalgarh	Kumbalgarh Fort

Part-II

Category ‘B’ Monuments

1.	Andhra Pradesh	Chittoor	Chandragiri	Raja and Rani Mahal
2.	Andhra Pradesh	Guntur	Amaravati	Ruined Buddhist Stupa and other remains
3.	Andhra Pradesh	Guntur	Undavalli	Four- storied rock-cut Hindu Temple
4.	Andhra Pradesh	West Godavari	Guntapalle	Buddhist Monuments
5.	Andhra Pradesh	Guntur	Pullareddigudem (Agraharam)	Hill of Nagarjunakonda (Agraharam) with the ancient remains
6.	Assam	Sibsagar	Garhagaon	Ahom Raja’s Palace
7.	Assam	Sibsagar	Joysagar	Karanghar Palace
8.	Assam	Sibsagar	Joysagar	Rang-ghar Pavallion
9.	Assam	Sibsagar	Joysagar	Bishnudol
10.	Assam	Sibsagar	Charaideo	Group of four Maidan
11.	Bihar	Patna	Kumrahar	Site of Mauryan Palace
12.	Bihar	Rohtas	Sasaram	Shershah Suri Tomb
13.	Bihar	Vaishali	Chakramdas	Ancient ruins, Vaishali
14.	Bihar	Bhagalpur	Antichak	Excavated site
15.	Chhattisgarh	Mahasamund	Sirpur	Laxman Temple
16.	Gujarat	Mehsana	Modhera	Sun Temple
17.	Gujarat	Junagarh	Junagarh	Buddhist Caves
18.	Gujarat	Junagarh	Junagarh	Ashokan Rock Edicts

19.	Gujarat	Junagarh	Junagarh	Baba Pyare and Khapra Kodiya Caves
20.	Gujarat	Gandhinagar	Gandhinagar	Rudabai Step Well, Adalaj
21.	Goa	Goa	Goa	Upper Fort Aguada
22.	Haryana	Kurukshetra	Thanesar	Sheikh Chilli's Tomb
23.	Haryana	Faridabad	Lakarpur	Suraj kund Monastery
24.	Himachal Pradesh	Kangra	Kangra	Fort
25.	Himachal Pradesh	Kangra	Masrur	Rock cut temple with sculptures
26.	Jammu and Kashmir	Udhampur	Kiramchi	Group of temples
27.	Jammu and Kashmir	Udhampur	Ramnagar	Ramnagar Palace
28.	Jammu and Kashmir	Leh	Leh	Palace
29.	Jammu and Kashmir	Pulwama	Avantipura awantiswami temple	Group of temples
30.	Karnataka	Mandya	Srirangapatna	Daria Daulat Bagh
31.	Karnataka	Mysore	Somanathapur	Keshva Temple
32.	Karnataka	Bangalore	Bangalore	Tipu Sultan Palace
33.	Karnataka	Chitradurga	Chitradurga	Fort
34.	Karnataka	Bellary	Bellary	Fort
35.	Karnataka	Bagalkot	Aihole	Durga Temple
36.	Karnataka	Bagalkot	Badami	Jaina and Vishnu Caves
37.	Karnataka	Bijapur	Bijapur	Gol Gumbaz
38.	Karnataka	Bijapur	Bijapur	Ibrahim Rouza
39.	Karnataka	Dharwad	Lakkundi	Temple and sculpture Gallery
40.	Kerala	Kasargod	Pallkere	Bekal Fort
41.	Kerala	Kerala	Kerala	Fort, Palakkad , Palakkad
42.	Kerala	Kannur	Kannur	Fort St. Angelo, Kannur
43.	Madhya Pradesh	Burhanpur	Burhanpur	Shahi Quila
44.	Madhya Pradesh	Dhar	Bagh	Buddhist Caves number 1 to 7
45.	Madhya Pradesh	Dhar	Mandu	Royal Complex
46.	Madhya Pradesh	Dhar	Mandu	Rani Roopmati Pavilion
47.	Madhya Pradesh	Dhar	Mandu	Hoshang Shah's Tomb
48.	Madhya Pradesh	Gwalior	Gwalior	Fort
49.	Madhya Pradesh	Mandsaur	Dhamnar, Tehsil Garoth	Buddhist Cave number 1 to 51, Dhamnar, Tehsil Garoth
50.	Madhya Pradesh	Ashok Nagar	Chanderi	Badal Mahal Gateway, Chanderi
51.	Madhya Pradesh	Anuppur	Amarkantak	Group of temple, Parameshvar Shiv and Karan Temple, Amarkantak
52.	Madhya Pradesh	Jabalpur	Jabalpur	Madan Mahal Quila
53.	Madhya Pradesh	Hoshangabad	Hoshangabad	Ancient Site and Adamgarh rock shelter, Kalamdi Rasuliya and Kishanpur
54.	Madhya Pradesh	Vidisha	Vidisha	Caves number 1 to 20 Udaygiri, Vidisha
55.	Madhya Pradesh	Datia	Datia	Bir Singh Palace Datia
56.	Maharashtra	Aurangabad	Daultabad	Daultabad Fort
57.	Maharashtra	Aurangabad	Aurangabad	Bibi-ka-Maqbara
58.	Maharashtra	Aurangabad	Aurangabad	Aurangabad Caves
59.	Maharashtra	Nasik	Pithardi	Pandav Lena Caves
60.	Maharashtra	Bombay Suburban	Kanheri	Kanheri Caves
61.	Maharashtra	Pune	Karla	Karla Caves
62.	Maharashtra	Pune	Junar	Junnar Caves and inscriptions
63.	Maharashtra	Raigad	Raigad	Raigad Fort
64.	Maharashtra	Pune	Pune	Shaniwar Wada
65.	Maharashtra	Kolaba	Alibad	Hirakota Old Fort

66.	Maharashtra	Sholapur	Sholapur	Old Fort
67.	Maharashtra	Pune	Bhaja	Caves, Temple and Inscriptions
68.	Maharashtra	Pune	Pune	Agha Khan palace
69.	Maharashtra	Raigad	Raigad	Janjira Fort, Murd
70.	Maharashtra	Mumbai Suburban	Mumbai Suburban	Kondiotte Caves
71.	Maharashtra	Pune	Pune	Lohgad Fort
72.	Maharashtra	Amravati	Amravati	Gawilgarh Fort
73.	Maharashtra	Nagpur	Mansar	Ancient Buddhist Remains comprising monastery stupa, rock sculptures, inscriptions etc. Mansar
74.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Lodhi Road	Tomb of Safdarjung
75.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Purana Qila	Old Fort
76.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Connaught Place	Jantar Mantar
77.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Nizamuddin	Rahim-Khan-i-Khana Tomb
78.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Nalikpur Kohi	Sulatangiri Tomb
79.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Tughlaqabad	Fort
80.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Delhi	Ferozshah kotla
81.	National capital Territory of Delhi	Delhi	Delhi	HauzKhas
82.	Odisha	Khorda	Bhubaneswar	Raja rani Mahal
83.	Odisha	Puri	Jagmaa	Udaygiri and Khandagiri
84.	Odisha	Cuttack	Ratanagiri	Excavated sites
85.	Odisha	Cuttack	Lalitgiri	Excavated sites
86.	Rajasthan	Bharatpur	Deeg	Deeg Palace
87.	Rajasthan	Ajmer	Ajmer	Marble Pavilion and balustrade on the Ana Sagar bund and ruins of the marble Hammam behind the Ana Sagar Bund
88.	Rajasthan	Dausa	Dausa	Baori at Abhaneri
89.	Rajasthan	Alwar	Alwar	Ancient Site, Bhangarh
90.	Telangana	Hyderabad	Golkonda	Golkonda Fort
91.	Telangana	Warangal	Warangal	Warangal Fort
92.	Telangana	Hyderabad	Hyderabad	Charminar
93.	Tamil Nadu	Dindigul	Dindigul	Fort
94.	Tamil Nadu	Villupuram	Ginjee	Rajagiri fort and Krishnagiri Fort
95.	Tamil Nadu	Tirchinapalli	Kalumbalur	Muvarkoil
96.	Tamil Nadu	Chennai	Fort St. George	Fort St. George
97.	Tamil Nadu	Pudukottai	Tirumayam	Fort
98.	Tamil Nadu	Pudukottai	Sittanvasal	Rock-cut Jain temples
99.	Tamil Nadu	Pudukottai	Sittanvasal	Natural caves called Eladipattanam
100.	Tamil Nadu	Kanyakumari	Kanyakumari	Fort Vattakottai
101.	Tamil Nadu	Virudunagar	Virudunagar	Tirumalai Nayak's Palace, Srivilliputhur
102.	Tamil Nadu	Kanchipuram	Kanchipuram	Tiger headed Rock cut temple & two other monuments, Saluvankuppam
103.	Uttar Pradesh	Banda	Kalinjar	Kalinjar Fort
104.	Uttar Pradesh	Agra	Agra	Group of monuments at Ram Bagh
105.	Uttar Pradesh	Agra	Agra	Itmad-ud-Daula's Tomb
106.	Uttar Pradesh	Agra	Sikandara	Marriyam's tomb

107.	Uttar Pradesh	Agra	Sikandara	Akbar's tomb
108.	Uttar Pradesh	Agra	Agra	Mehtab Bagh
109.	Uttar Pradesh	Ghazipur	Ghazipur	Lord Cornwallis Tomb
110.	Uttar Pradesh	Jaunpur	Jaunpur	Old Fort
111.	Uttar Pradesh	Varanasi	Varanasi	Observatory of Man Singh
112.	Uttar Pradesh	Varanasi	Sarnath	Excavated sites
113.	Uttar Pradesh	Jhansi	Jhansi	Rani Jhansi Mahal
114.	Uttar Pradesh	Sravasti	Sahet- Mahat	Monuments of Sravasti
115.	Uttar Pradesh	Jhansi	Jhansi	Jhansi Fort
116.	Uttar Pradesh	Lucknow	Lucknow	Residency
117.	Uttar Pradesh	Varanasi	Varanasi	Tomb of Lal Khan
118.	Uttar Pradesh	Varanasi	Varanasi	Ancient Buddhist Site know as Chaukhandi Stupa
119.	Uttar Pradesh	Siddharth Nagar	Siddharth Nagar	Piprahwa and Ganwaria
120.	Uttar Pradesh	Lalitpur	Lalitpur	Gupta Temple and Varah Temple, Deogarh
121.	West Bengal	Bankura	Bishnupur	Group of Temples at Bishnupur
122.	West Bengal	Cooch Behar	Cooch Behar	Cooch Behar Palace
123.	West Bengal	Murshidabad	Hazarduari	Hazarduari Palace"

[F. No. 9/2/2017-M]

USHA SHARMA, Director General

Foot Note: The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) dated 15th October, 1959 at pages 519-525 and subsequently amended vide:-

1. No. S.O. 3520, dated the 20th November, 1966
2. No. G.S.R. 663, dated the 1st May, 1967
3. No. S.O. 935, dated the 16th February, 1971
4. No. G.S.R. 90, dated the 30th January, 1991
5. No. G.S.R. 306, dated the 10th July, 1996
6. No. G.S.R. 799(E), dated the 17th October, 2000
7. No. G.S.R. 800(E), dated the 17th October, 2000
8. No. G.S.R. 848(E), dated the 3rd November, 2000
9. No. S.O. 10(E), dated the 5th January, 2001
10. No. G.S.R. 688(E), dated the 24th September, 2001
11. No. G.S.R. 372(E), dated the 30th April, 2003
12. No. G.S.R. 112(E), dated the 27th February, 2008
13. No. G.S.R. 164(E), dated the 5th March, 2008
14. No. G.S.R. 436(E), dated the 3rd June, 2008
15. No. G.S.R. 631(E), dated the 13th August, 2012
16. No. G.S.R. 391(E), dated the 31st March, 2016
17. No. G.S.R. 1539(E), dated the 21st December, 2017
18. No. G.S.R. 98(E), dated the 24th January, 2018
19. No. G.S.R. 726(E), dated the 30th July, 2018
20. No. G.S.R. 879(E), dated the 13th September, 2018